

CO:MBD:2022-23:63

10th May, 2022

National Stock Exchange of India Limited Listing Department Exchange Plaza, Plot No.C/1, 'G' Block Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai-400 051 Scrip Code - CENTRALBK	BSE Ltd. Corporate Relationship Dept. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort Mumbai 400001 Scrip Code - 532885
--	--

Dear Sir/Madam,

Sub : Press Clippings of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Fourth Quarter & Financial Year ended 31st March 2022

Further to our letter no. CO:MBD:2022-23:55 dated 09th May, 2022, we wish to inform that Financial Results of the Bank for the Fourth Quarter & Financial Year ended 31st March 2022 were published in following newspapers:

Particulars	Newspaper	Language	Editions
Audited standalone and consolidated financial results of the Bank for the Fourth Quarter / Financial year ended 31st March, 2022.	Financial Express	English	All
	Jansatta	Hindi	All
	Loksatta	Marathi	Mumbai

Copies of relevant press clippings of abovesaid newspapers are enclosed herewith.

Please take the above on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For CENTRAL BANK OF INDIA



**ANAND KUMAR DAS
DEPUTY GENERAL MANAGER/
COMPANY SECRETARY**



SAYS GOVT SCRAPPED 1500 COLONIAL LAWS

Will relook at sedition, you defer hearing: Govt to SC

Will re-examine 124A...Prime Minister committed to civil liberties, cherished freedoms, says home ministry

ANANTHAKRISHNAN G
New Delhi, May 9

CLAIMING THAT it is "fully cognizant of the various views" being expressed on sedition law, the Centre Monday told the Supreme Court that it has decided to re-examine and re-consider the provisions of Section 124A (that deal with the offence) and urged it to defer hearing on petitions challenging the Constitutional validity of the law until such exercise is carried out "before an appropriate forum".

In a brief affidavit, the ministry of home affairs said that Prime Minister Narendra Modi has "periodically, in various forums, expressed his unequivocal views in favour of protection of civil liberties, respect of human rights, and giving meaning to the constitutionally-cherished freedoms by the people of the country". The PM, it added, "has repeatedly said that one of India's strengths is the diverse thought streams that beautifully flourish in our country".

"The government of India being fully cognizant of various views being expressed on the subject of sedition and also having considered the concerns of civil liberties and human rights, while committing to maintain and protect the sovereignty and integrity of this great nation, has decided to re-examine and reconsider the provisions of Section 124A of the Indian Penal Code which can only be done before the competent forum", the affidavit said.

In view of this, the government "respectfully submitted that this Hon'ble court may not invest time in examining the validity of Section 124A once again and be pleased to await the exercise of reconsideration to be undertaken by the Government of India before such reconsideration is constitutionally permitted".


It did not specify any time frame for this re-consideration. The government said that while there is unanimity on the need for a statutory provision to deal with acts against sovereignty and integrity, there are also concerns about its abuse for purposes not intended. "As far as section 124A is concerned, there are divergent views expressed in public domain by various jurists, academicians, intellectuals and citizens in general. While they agree about the need for statutory provisions to deal with serious offences of divisive nature affecting the very sovereignty and integrity of the country, acts leading to destabilising the government established by law means not authorised by law or prohibited by law. Requiring a penal provision for such purposes is generally accepted by everyone in legitimate state interest. However, concerns are raised about its application and abuse for the purposes not intended by law", said the affidavit.

Referring to the PM's views,

In an affidavit, Union home ministry said PM Narendra Modi has periodically, in various forums, expressed his unequivocal views in favour of protection of civil liberties and respect of human rights

The PM, it added, "has repeatedly said that one of India's strengths is the diverse thought streams that beautifully flourish in our country"

The government has decided to re-examine and reconsider the provisions of Section 124A of the IPC which can only be done before the competent forum, the affidavit said



It said he "believes that at a time when our nation is making Azadi Ka Amrit Mahotsav" (75 years since independence), we need to as a nation work even harder to shed colonial baggage that has passed its utility, which includes outdated colonial laws and practices. In that spirit, the Government of India has scrapped over 1500 outdated laws since 2014-15. It has also ended over 25,000 compliance burdens which are causing unnecessary hurdles to people of our country. Various offences which were causing mindless hindrances to people have been decriminalised. This is an ongoing process. These were laws and compliances which receded of a colonial mindset and thus have no place in today's India".

Hearing the petitions, a three-judge bench, headed by Chief Justice of India N V Ramana, had asked the Centre to apprise the court of its stand vis-a-vis Section 124A. The bench also wondered if it should refer the matter to a larger five-judge Constitution bench in view of the 1962 decision of a Constitution bench in the case Kedar Nath Singh vs State of Bihar, and sought the views of the Centre, the petitioners and Attorney General K V Venugopal on this.

In the Kedar Nath Singh case, the apex court had upheld the validity of the sedition law while attempting to restrict its scope for misuse. It had held that unless accompanied by incitement or a call for violence, criticism of the government cannot be construed as a seditious offence.

The information and technology sector saw 95% of employers expressing keenness to hire. This was followed closely by educational services with 86% of the employers expressing intention to hire. E-commerce and technology start-ups and healthcare and pharmaceuticals were the other front-runners in the hiring intent.

According to consultants, demand for entry level talent is the highest, which has seen a 10 percentage points growth in hiring intent. Further, from a function point of view, sales and IT functions will remain in demand.

To be sure, the year 2022 started on a weak note due to the Omicron wave that hit in January, however, February onwards hiring numbers have remained strong. With strong growth in hiring numbers in February and March, the overall hiring numbers for the fourth quarter were higher.

SHUBHRA TANDON
Mumbai, May 9

GROWING DEMAND FOR talent in the information technology (IT) sector has led to a sharp rise in 'offer shopping' or 'offer trading' for roles across companies. The offer drop ratio has risen across sectors, but for IT, it has now gone up to 50-55% from 25% in two years. The offer drop ratio is the number of people who accept the offer to the number of people who join. The practice has become so common that on average each candidate is holding five to six offers and then taking up the best one. This is also becoming a major pain point for the human resource (HR) departments, which are now finding it hard to forecast hiring.

Offer trading is rampant as candidates hold multiple offers and have parallel conversations with several employers at the same time to move the offer value incrementally. Xpheno, the Bangalore-based specialist staffing firm has observed that a candidate picks an offer, serves the notice to the current employer and then uses the notice period to continue collecting more offers. Praasadh M.S., technology specialist at Xpheno, said: "Offer trading is now the game. Candidates use the offer on hand as the base to negotiate the next offer. The idea is to maximise the number of offers they can collect and hop over them to maximise the value. We also have cases where a counter-offer is negotiated with the current employer in the last week of the notice period and the candidate stays on".

Offer drop ratio across six sectors — automotive, consulting, consumer business, healthcare, IT and pharmaceuticals has risen to nearly 35% in the financial year ended March 31, 2022, as against 27.06% in FY21, according to data shared by Spectrum Talent Management. Consulting, consumer goods businesses and IT companies are facing the maximum offer drop ratio. In the last year, it has risen sharply.

Vidur Gupta, director and co-founder, Spectrum Talent Management, highlighted that apart from the high demand, longer notice periods and work from home are contributing to the rise in offer shopping. "The biggest challenge in India is that the notice period in organisations is up to three months, which gives the candidates a lot of time to accept an offer and then keep looking around for more opportunities. The offer drop ratio across six sectors — automotive, consulting, consumer business, healthcare, IT and pharmaceuticals has risen to nearly 35% in the financial year ended March 31, 2022, as against 27.06% in FY21, according to data shared by Spectrum Talent Management. Consulting, consumer goods businesses and IT companies are facing the maximum offer drop ratio. In the last year, it has risen sharply.

Offer drop ratio (sector-wise)




Illustration: Akriti Phate

Source: Spectrum Talent Management

Also, earlier candidates would look around for opportunities within their city limits, but now with remote working a person has many more opportunities to choose from without moving cities, which is leading to a rise in offer shopping, Gupta said. However, within IT too, the trend is more and more popular in vanilla skills like Java, which have a wider hiring scope across companies. The firms in more niche areas like telecom hardware or consulting firms are limited in number and therefore talent with skills suitable for these finds limited options.

Raj Tanwar, chief strategy officer & HR head at Advantage Club, a global employee benefits provider, said that offer shopping is a fall-out of Great Resignation and is becoming popular even amongst passive job-seekers. He figures the phenomenon is similar to how consumers shop. Easy access to informa-

tion in the public domain has changed how people search, evaluate, and try on a potential job before they accept it. The job seekers are looking for insights from those who know the team, work culture, flexibility, perks, benefits and other experiences. They check out photos and videos that provide a peek into the walls of a potential employer.

"Today, a job seeker compares all aspects and not just salary before making a final decision for the offer, just like what consumers do while shopping. Employers are not looking for just any candidate; they are looking for the right candidate. And the right candidate comes to them with eyes wide open because they've done their research shopping for the right job," Tanwar said.

While offer shopping is not new, the organisations trying to make up for the losses in the last two years through aggressive hiring and availability of candidates through virtual interactions are also leading to the rise in offer shopping. However, Parul Mathur, senior vice-president (HR & training), Spectrum Talent Management, believes the trend is short-lived.

"The fact that most organisations are setting for virtual interviews over traditional physical interviews is not half of the reason for the number of offers being made across industries. However, the trend is short-lived and might see a steep dip in the next half of the year as companies get down to strategy execution mode," she said.

However, Gupta of Spectrum believes that it is still a job-seekers market and the trend is here to stay at least for the rest of the year.

Hiring activity expected to increase 20-30% in FY23

SHUBHRA TANDON
Mumbai, May 9

HIRING MOMENTUM in the coming months will remain buoyant across sectors and is expected to increase 20-30% over the last financial year, with jobs available across banking and financial services, manufacturing, IT/ITES, retail, healthcare, telecom, automotive and real estate.

Sekhar Gariga, CEO, Monster India told FT that the job demand looks promising and will remain strong for the

upcoming months, with demand for fresher and junior management employees remaining high in the next few months. "We are expected to see a 20-30% increase in jobs in FY23 as compared to FY22. The hiring activity will be largely focused on BFSI, telecom/ISP and manufacturing sectors along with progressive hiring in IT/ITES, healthcare, retail, automotive and real estate industries," he said.

According to the latest TeamLease Employee Outlook Report, hiring intentions of

India Inc have improved sequentially, with more than 54% of corporates looking to hire in the June quarter versus the previous one. This indicates a rise of four percentage points in hiring sentiments.

The information and technology sector saw 95% of employers expressing keenness to hire. This was followed closely by educational services with 86% of the employers expressing intention to hire. E-commerce and technology start-ups and healthcare and pharmaceuticals were the other front-runners in the hiring intent.

According to consultants,

demand for entry level talent is the highest, which has seen a 10 percentage points growth in hiring intent. Further, from a function point of view, sales and IT functions will remain in demand.

To be sure, the year 2022 started on a weak note due to the Omicron wave that hit in January, however, February onwards hiring numbers have remained strong. With strong growth in hiring numbers in February and March, the overall hiring numbers for the fourth quarter were higher.

LinkedIn India's Labour Market Update for the quarter found that hiring rate was 101% higher year-on-year compared to pre-Covid levels. Remote working options, according to the findings have also helped to the rising trend. There is a larger proportion of paid job postings that offer remote work options compared to one-year ago — which reflects that companies are becoming more open to provide workers with flexible work options.

Godrej Agrovet Limited

Registered Office: "Gadge One", 3rd Floor, Prologis Park, Eastern Express Highway, Veturli East, Mumbai - 400078, Maharashtra, India. Website: www.godrejagrovet.com, Tel no. +91 22 2519 4474, Fax no. +91 22 2519 5124, Email id: gajiv@godrejagrovet.com

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022

Sr. No.	Particulars	3 months ended		Preceding 3 months ended		Corresponding 3 months period in previous year	
		March 31, 2022	December 31, 2021	December 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2021
1	Total Income from Operations	2,380.75	2,079.48	1,462.48	6,336.09	6,266.71	
2	Net Profit/(Loss) for the period (Before Tax, Extraordinary Items)	174.43	97.18	78.57	588.85	463.15	
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (After Extraordinary Items)	174.43	79.93	78.57	541.87	453.15	
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (After Extraordinary Items)	159.81	42.39	63.58	419.15	347.57	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period before Tax & minority interest) and Other Comprehensive Income (After Tax and minority interest)	121.15	64.44	59.32	430.86	318.97	
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- per share)	192.11	192.11	192.07	192.11	192.07	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) set shown in the Audited Balance Sheet of the preceding year	2,086.31	2,086.31	2,086.31	1,866.10	1,866.10	
8	Earnings per Equity Share (Face Value of Rs.10/- per share) (on continuity operation) (non-annualised)	1.36	1.36	1.25	2.26	2.26	
9	"Basic"	1.36	1.36	1.25	2.26	2.26	
10	"Diluted"	1.36	1.36	1.25	2.26	2.26	

KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS

Sr. No.	Particulars	3 months ended		Preceding 3 months ended		Corresponding 3 months period in previous year	
		March 31, 2022	December 31, 2021	December 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2021
1	Total Income from Operations	1,400.31	1,544.10	963.57	6,192.69	4,413.34	
2	Profit Before Tax	103.88	122.93	480.34	382.56	382.56	
3	Profit After Tax	85.53	84.74	33.55	360.21	279.05	
4	Total Comprehensive Income (After Tax)	78.60	84.14	92.21	358.36	281.71	

Notes:

- The above is an extract of the detailed form of the Standalone & Consolidated Audited Financial Results for Quarter and Financial Year ended March 31, 2022 filed with the Stock Exchanges and Disclosures (Requirements) 2015. The full form of the Standalone & Consolidated Audited Financial Results for Quarter and Financial Year ended March 31, 2022 are available on the website of Godrej Agrovet Limited (www.godrejagrovet.com) on the website of the National Stock Exchange of India Limited (www.nse.com).
- The above Financial Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective Meetings held on Monday, May 9, 2022. The Statutory Auditors of the Company have carried out an audit of the above financial results and they have expressed an unmodified audit opinion.
- The Board of Directors have recommended Final Dividend of 8% on the Equity Share Capital of the Company. The amount of Rs. 950 per Equity Share of Face Value of Rs. 120/- each for the Financial Year ended March 31, 2022, subject to approval of the shareholders at the ensuing Annual General Meeting of the Company.
- With a view to focus on its core activities, the Company has partially sold the real estate property during the Financial Year ended March 31, 2021 in Godrej Properties Limited and the reversal of Rs.96.00 crore has been included in Other Operating Income of the preceding Financial Year.
- Other income in the Standalone Financial Results includes income of Rs. 30.14 crore for the Quarter ended December 31, 2021 and Financial Year ended March 31, 2022 and income of Rs. 39.94 crore for the Financial Year ended March 31, 2021, both being disclosed separately in a prior interim. This does not have any impact on the Consolidated Financial Results.
- Other Income for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2022 in the Standalone and Consolidated Financial Results includes Rs.42.26 crore of contingent consideration received by the Company including interest relating to a past business acquisition.
- In view of Covid-19 pandemic, the Management has considered internal and external sources of information, including economic, financial and industry reports up to the date of approval of the financial results, in determining the impact of pandemic on its financial results. The Management has used the principles of prudence in preparing judgments, estimates and assumptions including sensitivity analysis and based on the current estimates, the Management expects to fully recover the carrying amount of investments, loans, receivables, trade and insurance, pre-paid, intangible assets and investments. The eventual outcome of impact of the global health pandemic may be different from those estimated as on the date of approval of the Financial Results.
- Exceptional item for the Quarter ended December 31, 2021 and Financial Year ended March 31, 2022 pertains to non-recurring expense of Rs.7.26 crore recognized by the sale of our subsidiary companies, viz., "Creative Dyes Products Limited, an account of O&B liability arising out of classification issue of favored stock, being held by the entity.
- The Company has issued and allotted 13,844, 10,118, 18,690 and 392 Equity Shares of Rs.10/- each on May 7, 2021, June 1, 2021, July 15, 2021 and February 4, 2022 respectively pursuant to exercise of stock options in accordance with the Company's Employee Stock Option Scheme, 2018.
- The figures for the Quarter ended March 31, 2022 and March 31, 2021 use the balancing figures between the audited figures in respect of the Q4 Financial Year and the published unaudited year to date figures upto the last quarter of the respective Financial Year.

For Godrej Agrovet Limited:
Sd/-
B. S. Yester
Managing Director
(DIN: 002546603)

Place: Mumbai
Date: May 9, 2022

YOUR DESIRED LOAN IS JUST A MISSED CALL AWAY

Give us a missed call to **022-39041111**

Audited Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2022

Particular	Standalone				Consolidated			
	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended	Year Ended
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	Audited	Reviewed	Audited	Audited	Audited	Reviewed	Audited	Audited
Total Income from Operations (Net)	6,41,958	6,52,378	5,72,938	25,77,013	25,84,990	6,44,402	6,55,110	5,74,454
Net Profit/(Loss) from ordinary activities after Tax	31,031	27,892	(1,34,921)	1,04,483	(88,758)	31,717	26,610	(1,35,464)
Net Profit/(Loss) from ordinary activities after Tax (after Extraordinary Items)	31,031	27,892	(1,34,921)	1,04,483	(88,758)	34,226	28,248	(1,44,174)
Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- per share)	8,68,094	8,68,094	5,87,556	8,68,094	5,87,556	8,68,094	8,68,094	5,87,556
Reserves excluding Revaluation Reserves (as per Balance Sheet of previous accounting year)				15,13,082	12,03,725			15,15,352
Basic Earnings Per Share (in ₹) before and after Extraordinary Items, net of Tax Expense (not annualized)	0.36	0.32	(2.30)	1.27	(1.83)	0.39	0.33	(2.45)
Diluted Earnings Per Share (in ₹) before and after Extraordinary Items, net of Tax Expense (not annualized)	0.36	0.32	(2.30)	1.27	(1.53)	0.39	0.33	(2.45)

Note: Figures of the previous periods have been regrouped/reclassified wherever considered necessary to conform to current period classification.

Note: The above is an extract of the detailed form of the Quarter Ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full form of the Quarter Ended Financial Results are available on www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.centralbankofindia.co.in

Place: Mumbai
Date : 09.05.2022

Alok Srivastava
Executive Director

Vivek Wahi
Executive Director

Rajeev Puri
Executive Director

M. V. Rao
Managing Director & CEO


Toll Free Number 1800-22-1911

Follow us on: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube

Wear Mask, Maintain Hand Hygiene, #UnitedAgainstCovid

Central Bank of India, Merchant Banking Division

दीर्घकाळ फोन पाहण्याची सवय आरोग्यास बाधक



आरोग्यवार्ता

मात करणारी अशी ही सवय आहे.

या सवयीमुळे मानसिक आरोग्यावर दुष्परिणाम होतो. विनासव्यसना निमाणां होऊन ती वाढत जाते. नाग, नेत्राण, अस्थ्यर्थतेशी भर पडते. जर वेळीच ही सवय रोखली नाही तर मेंदूच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याचा मोठा धोका असतो. त्याने शारीरिक व्याधीही जडतात, असे तज्ज्ञ सांगतात.

सतत मोबाइलमध्ये पाहता राहिल्याने 'सहजिक' विकार सोशलिसिंस 'सारखे मानेचे विकार होतात. 'सॉफिंग' करताना एका जागी खूप वेळ एकाच स्थितीत बसल्याने गणपणाचे विकार किंवा संघर्षात होण्याचा धोका वाढतो. तसेच हाताचा तणाव व हात बांधर करणारा 'काल टनेल सिंड्रोम' वळी पडतो आतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. तुमचा वेळ आणि निवृत्ती



कृपाविबरात तुमचा अडकला आहात. याची तुमच्या जागीवत झाली असल्याने, या सवयीवरील कायदा अधिक सजण होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्याचा दीर्घकालीन मानसिक आणि मेंदूच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होण्याचा धोका आहे.

आपला फोन पाहण्याची विरष्ट वेळ ठरवून घ्या. नैनिनन व्यायामानंतर, कामांतरानन घेतलेल्या 'ब्रेक' मध्ये किंवा तुमच्या सोयीची एखादी वेळ निवडा. त्या वेळेव्यतिरिक्त तुमचा फोन पाहण्याचा मोह टाळा. सकाळी उठल्यानंतरचा वेळ ध्यानधारणा, प्रायना, व्यायामसाठी द्या. राहणे सकाळपर्यंत फोनपाहून लांब राहणे सवयीनं हितवाह आहे. आपल्या फोनपाहून 'डिस्कनेक्ट' होऊन निसर्गाशी 'कनेक्ट' व्हा, त्यामुळे तूम्ही ताजेतवाने व्हाल, असे वैद्यकीय तज्ज्ञ सांगतात.

टेंडेशन, मानसिक ताणतापटा व त्रिद्विदनाश

शारंगधर

ब्रेव्काम

घसा, घ्राणी, शंभ्रभ्रम, चरामांती, उदरगंध, शंभ्रभ्रमची बांधे बांधे घनेतीन स्थानेन चरकवृद्धकेन तुष्यतेः

- मूंदूची ताकद वाढवून ताण तणाव दूर करते.
- निद्रानाग, अजात झोप झा विकारावर उपयोजी.
- रक्तदाब नियंत्रणात ठेवते आणि भ्रमनाला शान्तिना देते.

सर्व प्रमुद्व अंशुभी नुकडालत उपकरणां च मित्रालयास संपर्कः Customer Care - 9225515525, Puna - 9225543287, Mum. - 8958340418

'अदानी इलेक्ट्रिसिटी'ला दोन लाखांचा दंड

कामगार संघटनेकडे तीन महिन्यांत रक्कम जमा करण्याचे आदेश

लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्र औद्योगिक संघ कायदा (एमआयआ) अन्वयेच्या लागू नसल्याचा अदानी इलेक्ट्रिसिटीने विरोध दावा उच्च न्यायालयाने फेटाळला. तसेच कंपनीने दाखल केलेली याचिका कामगार संघटनेच्या सर्व्हायल कॅम्पेनीसोबतच्या व्हॉलंटरी श्रकण्याचा प्रयत्न आहे, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने कंपनीला दोन लाख रुपयांचा दंड सुनावला. त्याचवेळी ही रक्कम तीन महिन्यांच्या आत कामगार

संघटनेकडे जमा करण्याचे आदेश

दिले. कंपनी आणि कामगार संघटना यांच्यातील मूळ वादाच्या तपशिलात न जाता, औद्योगिक न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचा आणि त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत, असेही न्यायालयाने कंपनीची याचिका फेटाळताना नमूद केले.

व्यवसायात असल्याने, मुंबई आणि

मिठा-भाईदरला वीजपुरवठा करत असल्याने महाराष्ट्र औद्योगिक संघ कायदा लागू होत नसल्याचा दावा केला होता. कंपनीचा व्हॉलंटरी प्रयत्न आहे. २९ ऑगस्ट २०१८ पूर्वी, हा प्रकल्प आणि व्यवसाय बांध्ये सर्वत्र इलेक्ट्रिक सलाना लिमिटेडच्या मालकीचा होता आणि त्याच्याकडून पालवला जात होता. ऑगस्ट २०१९ च्या आणि त्यानंतरच्या सर्व अडिसेना कंपनीने उच्च न्यायालयात आदान दिले होते. तसेच कंपनी नो जॉननिमिती

असल्याचा दावा कंपनीने याचिकेत

केला होता. कंपनीने ही याचिका जिराने दाखल केली असून कंपनी आणि तिच्या अधीक्षक कॅम्पेनींनी कोर्टात मुद्दे न मांडता औद्योगिक न्यायाधिकारसामोर सुनावणीला पाठ घेतला होता, असा दावा कामगार संघटनेच्या वतीने करण्यात आला होता. न्यायालयाने कामगार संघटनेचे म्हणणे मान्य करत एमआयआ कायद्यातील तरतुदी कंपनीला लागू होत असल्याचे स्पष्ट केले, तसेच कंपनीची याचिका फेटाळली.

झाकीर हुसेन, शशिकांत

गरबारे यांना मुंबई विद्यापीठाची मानद पदवी

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या वतीने प्रसिद्ध तबलावाक रत्नाद झाकीर हुसेन यांना डॉक्टर ऑफ लॉ (एलएलडी) आणि परिसद उद्योजक शशिकांत गरबारे यांना डॉक्टर ऑफ लिटरेचर ही मानद पदवी प्रदान करण्यात येणार आहे. १२ मे रोजी विशेष दीक्षान समारंभात मान्यता व कुलपती भगवत्सिंह कोळारी यांच्या हस्ते विद्यापीठाच्या फॉट वेधील सर कायसजी जहांगीर दीक्षान सभागृहातही मानद पदवी प्रदान करण्यात येणार आहे. कायसजीला रत्नाचे उच्च व तंत्रिकाक्षेत्रांमधील उच्च समान, रत्नांमधी प्रोजेक्ट तपुप्रे उपस्थित राहणार आहेत.

Whistling Woods

A Learning Journey of Experiences with Award-winning Faculty Specialised workshops Opportunity to learn with the best Masterclasses with industry experts at Asia's Premier Institute of Film, Communication & Creative Arts

BEYOND THE STORY OF SUCCESS

Degree, Post-Graduate & Diploma Programmes

Offered Under an Agreement with Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD), an Institute of National Importance

BSc Filmmaking 13 Years

MA Filmmaking with Specialisation 12 Years (Specialisation offered: Cinematography/Directing/Editing/Producing/Production Design/ Sound Recording & Design/VFX)

BSc Screenwriting 12 Years | Dip Screenwriting 11 Year

MBA Animation 14 Years | BDes Game Design 14 Years

BDes Fashion Design 14 Years | MA Costume Design 12 Years

BDes Visual Communication Design 14 Years

BBA Media & Communication 13 Years | MBA Media & Entertainment 12 Years

BBA Event Management 13 Years | MBA Event Management & Experiential Marketing 12 Years

BBA Sports & Esports Management 13 Years | MBA Sports & Esports Management 12 Years

BA Acting 13 Years | Adv. Dip Acting 12 Years

BA Music Production & Composition 13 Years

Admissions Open ENRICHMENT EXAM 2022 admission@whistlingwoods.net | www.whistlingwoods.net 9 Family Complex, Goregaon East, Mumbai - 400065, Maharashtra, India

अपहृत मुलीची तीन तासांत सुटका

आरोपीला अटक

मुंबई : गावठीचे पारसरावने येवता झालेल्या लहान मुलीची अपहृतता तीन तासांत सुटका करण्यात आल्याची बातमी आहे. या प्रकरणी २४ वकील कमणाला पोलिसांनी अटक केली आहे. कॅम्पेनी विजया हाया बाजूला त्यांनी केवळ उद्योगांनी असल्याच्या प्रत्येक झोपडपट्टीसुद्धा अडिअर यवनी

वांटे येथील इमारतीच्या १४व्या मजल्यावर आग

मुंबई : वांटे (पॉपिंग) येथील भवन तंत्रज्ञानयुक्त विद्येय या २४ मजली इमारतीच्या १४ मजल्यावर शंभरवारी रायकवडी राणो अडिअर यवनास आग लागली. या घटनेची माहिती मिळाल्या अर्निनामक दलाते जलात पडल्यानंतरही दलात झाले असून आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात उशी लागल्या व आल्याचे अर्निनामक दलातील अधिकाऱ्याने सांगितले. आगीच्या घटनेची श्वाभिक पोलीस व अर्निनामक दलाचे अधिकाऱी तयार करत असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.

लोक अदालतीतील अधिकाऱ्यांना प्रकरणे निकाली काढण्याचे अधिकार द्या

राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आदेश

लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : लोक अदालतीत सहभागी होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नुकसान भरपाईबाबत तडजोड करण्याचा किंवा प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी समती देण्याचा अधिकार नसल्याची राष्ट्रीय लोक अदालतीने मंचेवर दखल घेतली आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना हे अधिकार देण्याच्या दृष्टीे लागूने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. नुकसानभरपाईची प्रकरणे निकाली निघण्यासाठी आर्थावहित शिक्के होत असल्याने त्याबाबतच्या कायद्याचा उल्लंघन होऊ शकतो असे असल्याचे निरीक्षणीत राष्ट्रीय लोक अदालतीने या वेळी नोंदवले.

मुंबईत ६३ नवे रुग्ण

मुंबई : मुंबईतील कोरोनाच्या नव्या रुग्णांच्या संख्येने कमी वाढ, तर कधी घट दिसून येत आहे. रिविवाच्या तुलनेत सोमवारी मुंबईतील नव्या रुग्णांच्या संख्येत घट झाली. मुंबईत सोमवारी ६३ नवे रुग्ण आढळले, तर शुक्र मूळची नोंद झाली. रिविवाी मुंबईत ५,६१० कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या. यात ६३ जणांना कोरोनाची बाधा झाल्याचे आढळले असून यापैकी मुंबईत दोन रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ६१ रुग्णांना कोव्हीडी रुग्णालयात, सोमवारी मुंबईत ६३ रुग्ण आढळले असताच केवळ दोन रुग्ण ट्यांगलेला नाते. त्याच वेळी ५६ रुग्ण बरे झाले असून रुग्ण बरे होण्याचा दर ४८ टक्के आहे. सध्या सध्याबाबतीचा दर ०.९० टक्के असा आहे. सध्या मुंबईत एकूण काळ किंवा झोपडपट्टी प्रतिस्थापित नाही.

आपल्या इच्छित फंजासिनी मिस्सक कल्ल फात

आम्हाला मिळ कोण वा

922 390 1111

31 मार्च 2022 रोजी संपलेल्या तिमाही व वर्षे ममाणी साठी स्टॅंडअलोन आणि एकजिन लेखापरिशीत आर्थिक निकाल (र लाख फक्त)

विवरण	एप्रिल 2021	एप्रिल 2022	एप्रिल 2021	एप्रिल 2022	एप्रिल 2021	एप्रिल 2022	एप्रिल 2021	एप्रिल 2022
परिचालनानुसृत निव्वळ उपन्य (निव्वळ)	6,41,958	6,52,378	5,72,938	25,77,013	25,84,590	6,44,482	6,55,110	5,74,454
सर्वसाधारण भौतिकीयानुसार परचयान निव्वळ नसव / (मोटा) (असाधारण बाकी परचयान)	31,031	27,892	(1,34,921)	1,04,483	(88,758)	31,717	28,610	(1,35,464)
कर परचयान निव्वळ नसव / (मोटा) (असाधारण बाकी परचयान)	31,031	27,892	(1,34,921)	1,04,483	(88,758)	34,226	28,248	(1,44,174)
प्रदान सन्मनाची भाग भांडवल (दर्शनी मूल्या १०/- प्रति सन्मना)	8,68,094	8,68,094	5,87,556	8,68,094	5,87,556	8,68,094	8,68,094	5,87,556
संश्लेष तिथी, पुनर्मुल्यनयन राशीती निधी वाढवून (यातील लेखा बाकीला ताडेवडी नुसार)	-	-	15,13,082	12,03,725	-	-	-	15,15,352
पॉल शेअर मुल्य घालती (२ फभे) असाधारण बाकी पूर्व आणि नंतर, निव्वळ कर शक्य परचयान (बाबिक नाही)	0.36	0.32	(2.30)	1.27	(1.53)	0.39	0.33	(2.45)
पॉल शेअर घालणी झाल्यानंतर (२ फभे) असाधारण बाकी आणि नंतर, निव्वळ कर शक्य परचयान (बाबिक नाही)	0.36	0.32	(2.30)	1.27	(1.53)	0.39	0.33	(2.45)

टिप: बरील तपशील सेवे (निर्दिष्ट आणि इतर एकटिकर आबखरकना) निरय, 2016 च्या निरय 33 अर्निगत स्टिक एक्सेचनेकडे नोंदलेल्या सन्मानीच्या अर्थिक निव्वळच्या तपशीलवार नमुन्याचा सारास आहे. तिमाही सलान झालेल्या आर्थिक निव्वळचा सार्वभुमुन्ये www.bseindia.com, www.nseindia.com आणि www.centralbankofindia.co.in वर उपलब्ध आहे.

सन्मन: मुंबई दिनांक: 09.05.2022

विवेक वाशी वर्येसारी संचालक

राजीव पुरी वर्येसारी संचालक

एच.जी. राव वर्येसारी संचालक

Wear Mask | Follow Physical Distancing | Maintain Hygiene | #Units2FightCorona

टोल फ्री क्रमांक 1800-22-1911 | www.centralbankofindia.co.in | आम्हाला कोसले कर | www.centralbankofindia

kissan

आता फक्त **₹100/-** मध्ये मोठा पॅक

900g

आम्हाला कोसले कर | www.centralbankofindia